



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2201]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 26, 2009/पौष 5, 1931

No. 2201]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 26, 2009/PAUSA 5, 1931

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2009

का.आ. 3301(अ).— एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 की धारा 5(2) (एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या के-11011/5/2009- डी डी आई ए दिनांक 16 दिसम्बर, 2009 के माध्यम से सूचित किया है कि श्री जे. पी. अग्रवाल और श्री सईद शाहनवाज हुसैन, सांसद (लोक सभा), व डॉ. कर्ण सिंह, सांसद सदस्य, राज्य सभा (जिनका राज्य सभा सदस्य के रूप में कार्यकाल दिनांक 27-1-2012 तक है) को विधिवत रूप से प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में चुना गया है।

[सं. फा. 1(2)2009/एसी/एमसी/ दि.वि.प्रा./117]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2009

S.O. 3301(E).— It is hereby notified that under Section 5 (2) (h) of the Delhi Development Act, 1957, the Government of India, Ministry of Urban Development have vide their letter No. K-11011/5/2009-DDIA dated 16th December, 2009 communicated that Lok Sabha Members of Parliament Shri J. P. Aggarwal and Shri Syed Shahnawaz Hussain and Rajya Sabha Member of Parliament, Dr. Karan Singh, (current term in Rajya Sabha up to 27-1-2012) have been elected to be members of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[No. F. 1(2)2009/AC/MC/DDA/117]

V. M. BANSAL, Principal Commr.-cum-Secy.